



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं0 पटना 629) पटना, सोमवार, 2 जुलाई 2018

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

4 जून 2018

सं0 सं0का0-1/वि0मं0(महानुभाव)-08-02/2018-335—उप सचिव, बिहार विधान परिषद के ज्ञापांक-1140 (1) वि0प0, दिनांक-12.05.2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय उप सभापति, बिहार विधान परिषद ने सदन में राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े विपक्षी दल होने तथा नियमानुसार विपक्षी दल की अर्हता के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या पूर्ण होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल की मान्यता प्रदान की है, जिसे बिहार विधान परिषद की अधिसूचना संख्या-1139 (1) वि0प0 दिनांक 12.05.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम-3 (क) के प्रावधानों के तहत श्रीमती राबड़ी देवी, सं0वि0प0 को बिहार विधान परिषद् सचिवालय की अधिसूचना के आलोक में दिनांक 12.05.2018 के प्रभाव से सरकार के मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 629-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>